

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

आप सभी को एसएमसी की ओर से  
होली  
की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं



Moneywise. Be wise.



## प्रमुख खबरें

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कम होकर 4.4% रह गया है।
- सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले बाजार वर्ष 2023-24 के लिए 34.15 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष में खरीदे गए 18.79 मिलियन टन से अधिक है।
- भारतीय खाद्य निगम ने चौथी ई-नीलामी के माध्यम से निजी थोक खरीदारों जैसे आटा मिलों और खाद्य कंपनियों को 5,40,000 टन गेहूं बेचा, जिससे इस वर्ष खुले बाजार में बेचे गए अनाज की कुल मात्रा 2.35 मीट्रिक टन हो गई।
- भारत ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए 2 मिलियन टन कच्चे सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात कोटा को खत्म करने का फैसला किया है।
- भारत ने फरवरी में रूस से प्रतिदिन रिकॉर्ड 1.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात

किया, जो इसके कुल आयात का 35% है।

- वर्ष 2022-23 में भारत में अरंडी के बीज का उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 19.46 लाख टन होने का अनुमान है: एग्रीवॉच।
- सरकारी संस्था कोचिलको ने कहा कि चिली में तांबे का कुल उत्पादन जनवरी में 2.9% बढ़कर 437,900 टन हो गया।
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने फरवरी महीने 28.97 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन किया है, जो जनवरी से 150,000 बैरल प्रति दिन अधिक है। सितंबर से उत्पादन अभी भी 700,000 बैरल प्रति दिन कम है।
- ईआईए की मासिक उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के निचले 48 राज्यों में सकल नेचुरल गैस का उत्पादन नवंबर में रिकॉर्ड 112.3 बिलियन क्यूबिक फीट/दिन से दिसंबर में 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन घटकर 109.2 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन रह गया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.02.23	02.03.23	बदलाव (%)
जौ	2249.50	2347.00	4.33%
धनिया	6884.00	7054.00	2.47%
स्टील	48670.00	49240.00	1.17%
कपास	1602.50	1614.00	0.72%
गुड़	1195.00	1198.00	0.25%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.02.23	02.03.23	बदलाव (%)
जीरा	31600.00	30020.00	-5.00%
ग्वारगम	12131.00	11686.00	-3.67%
ग्वारसीड	5728.00	5530.00	-3.46%
कैस्टरसीड	6584.00	6364.00	-3.34%
कैस्टर ऑयल	1379.50	1343.00	-2.65%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.02.23	02.03.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	226.40	241.10	6.49%
तांबा	750.50	766.95	2.19%
एल्युमीनियम	207.95	211.35	1.64%
लेड	182.65	185.45	1.53%
कच्चा तेल	6384.00	6471.00	1.36%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	24.02.23	02.03.23	बदलाव (%)
निकल	2286.10	2177.50	-4.75%
कपास	1620.00	1595.00	-1.54%

## साप्ताहिक समीक्षा

दो सप्ताह की गिरावट के बाद सीआरबी इंडेक्स थोड़ा बढ़कर बंद हुआ क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने चार सप्ताह की वृद्धि के बाद तेजी पर रोक लग गई। तीन हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोने की कीमतों को 1805 डॉलर के पास सपोर्ट मिला। छह सप्ताह की गिरावट के बाद चांदी की कीमतों ने भी 21 डॉलर के करीब सपोर्ट लिया। सोने की कीमतों में तेजी आई क्योंकि फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की हालिया टिप्पणियों ने इस साल मौद्रिक नीति को लेकर अधिक स्पष्टता प्रदान करने में मदद की। नेचुरल गैस की कीमतों में निचले स्तर से बहु-प्रतीक्षित तेजी देखी गई। अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में वृद्धि और यूरोप में मौद्रिक नीति को सख्त करने के कारण चीन की ओर से मांग में सुधार को लेकर नए सिरों से बढ़ती उम्मीदों के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़त के साथ बंद हुईं। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह अब तक लगभग 1.5% बढ़ चुकी हैं, जो निश्चित रूप से लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त है जबकि दुनिया के शीर्ष तेल आयातक चीन में ईंधन की मांग में वृद्धि की संभावना से डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 2% की छलांग दर्ज की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगातार 10 वें सप्ताह कच्चे तेल के भंडार में बढ़ोतरी हुई, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल के रिकॉर्ड निर्यात के कारण हाल के सप्ताहों की तुलना में भंडार में बढ़ोतरी कम हुई है। अमेरिकी सरकार की भंडारण से अनुमान से अधिक निकासी समग्र आपूर्ति की अधिकता को लेकर अधिक चिंतित बाजार को प्रभावित करने में विफल रहा, जिससे नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त कुछ कम हो गई। बेस मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। चीन से बेहतर संकेतों के कारण एल्युमीनियम की कीमतों में चार सप्ताह के निचले स्तर से रिकवरी हुई। चीन में, सेवा क्षेत्र में गतिविधि फरवरी में छह महीने में सबसे तेज गति से बढ़ी क्योंकि कोविड-19 के सख्त प्रतिबंधों को हटाने से ग्राहकों की ओर से मांग फिर से बढ़ गई। चीन में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि भी पिछले महीने एक दशक से अधिक समय में सबसे तेज गति से बढ़ी, जिससे ईंधन की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीदों को बल मिला। चीन में रूसी तेल का समुद्री आयात इस महीने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना है। लेकिन इस साल अमेरिकी मंदी की बढ़ती आशंकाओं के बीच गुरुवार को तांबे की कीमतों में भारी गिरावट हुई, जिससे औद्योगिक गतिविधियों में काफी कमी आ सकती है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी मैनुफैक्चरिंग गतिविधि में लगातार गिरावट आई है।

कृषि कमोडिटीज में, कैस्टर की कीमतों में तीसरे हफ्ते भी गिरावट जारी रही। कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों में भी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी ग्वारगम और ग्वारसीड को सपोर्ट नहीं मिल सका। किसानों के पास अधिक स्टॉक और ग्वारगम की कमजोर निर्यात मांग के कारण कीमतों पर दबाव रहा। जीरा और हल्दी की कीमतों में गिरावट हुई जबकि धनिया की कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिली। लेकिन जीरे की कीमतों में गिरावट सीमित रही क्योंकि गुजरात में उत्पादन क्षेत्र में गिरावट के कारण वर्ष 2023 में जीरे का उत्पादन 5-8% कम होने की उम्मीद है। त्योहारी मांग में सुधार और निर्यात पूछताछ से बाजार का सेंटिमेंट मजबूत है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कमजोर उपज संभावना से कीमतों की तेजी को समर्थन मिलने की संभावना है। मार्च-23 में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है जिससे धनिया की फसल जल्दी पक जाएगी। मंथा की कीमतें एक दायरे में रही।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	24.02.23	02.03.23	(%)
जौ	जयपुर	2759.85	2325.00	-15.76%
चना	दिल्ली	5149.80	5171.80	0.43%
धनिया	कोटा	6700.00	6845.85	2.18%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	902.60	902.25	-0.04%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1189.45	1193.60	0.35%
ग्वारसीड	जोधपुर	5711.50	5749.35	0.66%
ग्वारगम	जोधपुर	12121.55	12184.85	0.52%
जीरा	ऊंझा	30728.90	30762.40	0.11%
सरसों	जयपुर	5706.20	5725.15	0.33%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1137.50	1120.00	-1.54%
सोयाबीन	इंदौर	5651.85	5507.95	-2.55%
हल्दी	निजामाबाद	6984.85	6989.80	0.07%
गेहूं	दिल्ली	2406.40	2400.00	-0.27%
काँटन	कड़ी	29879.10	29879.10	0.00%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2736.95	2678.35	-2.14%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	24.02.23	02.03.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2335.50	2399.50	2.74%
तांबा	LME	नकद	8716.50	8958.50	2.78%
लेड	LME	नकद	2071.00	2125.50	2.63%
निकल	LME	नकद	24554.00	24395.00	-0.65%
जिंक	LME	नकद	2964.00	3048.00	2.83%
सोना	COMEX	अप्रैल	1817.10	1840.50	1.29%
चांदी	COMEX	मई	20.89	20.90	0.05%
लाइट क्रूड	NYMEX	अप्रैल	76.32	78.16	2.41%
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	2.55	2.77	8.63%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	24.02.23	02.03.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मई	15.19	15.09	-0.66%
सोया तेल	CBOT	मई	61.22	61.90	1.11%
काँटन	ICE	मई	84.90	83.71	-1.40%
सीपीओ	BMD	मई	4,202.00	4,294.00	2.19%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	23.02.23 क्वांटिटी	02.03.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	12406	10606	-1800
धनिया	मी.टन	0	0	0
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	5608	6295	687
ग्वारगम	मी.टन	15307	15079	-228
ग्वारसीड	मी.टन	22742	23152	410
जीरा	मी.टन	105	657	552
मक्का	मी.टन	0	0	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	24.02.23 क्वांटिटी	02.03.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	4051	3295	-756
तांबा	मी.टन	1010584	923640	-86944
सोना	किग्रा	318	318	0
सोना मिनी	किग्रा	13456	13448	-8
सोना गिनी	किग्रा	120500	54900	-65600
लेड	किग्रा	1305	1138	-167
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	231612	156163	-75449
चांदी एम	किग्रा	40910	40910	0
जिंक	मी.टन	2005	3204	1199

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 24.02.23	स्टॉक की स्थिति 02.03.23	अंतर
एल्युमीनियम	568800	546825	-21975.00
तांबा	64275	64225	-50.00
निकल	44346	43884	-462.00
लेड	25100	25075	-25.00
जिंक	30650	35750	5100.00



## ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	30275.00	25.01.23	मंदी	31485.00	-	31550.00	31600.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	7042.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7250.00	7300.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5595.00	07.02.23	मंदी	6000.00	-	5850.00	5900.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	6330.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	6940.00	6950.00
NCDEX	स्टील लांग	मार्च	49240.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	49750.00	49800.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	2614.00	30.01.23	मंदी	2890.00	-	2780.00	2800.00
MCX	मेंथा ऑयल	मार्च	1039.00	23.02.23	तेजी	1030.00	1020.00	-	1015.00
MCX	बुलडेक्स	मार्च	15075.00	15.02.23	मंदी	15300.00	-	15370.00	15400.00
MCX	चांदी	मई	64034.00	14.02.23	मंदी	66000.00	-	66800.00	67000.00
MCX	सोना	अप्रैल	55739.00	14.02.23	मंदी	56500.00	-	56550.00	56600.00
MCX	मेटलडेक्स	मार्च	17980.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	17400.00	19200.00	-
MCX	तांबा	मार्च	763.10	15.02.23	मंदी	770.00	-	786.50	788.00
MCX	लेड	मार्च	183.60	15.02.23	मंदी	184.00	-	189.00	190.00
MCX	जिंक	मार्च	268.80	15.02.23	मंदी	275.00	-	281.00	282.00
MCX	एल्युमिनियम	मार्च	209.70	15.02.23	मंदी	212.00	-	219.00	220.00
MCX	कच्चा तेल	मार्च	6437.00	30.01.23	मंदी	6400.00	-	6770.00	6800.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	227.40	01.03.23	तेजी	225.00	200.00	-	195.00

\*02/03/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना के ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा (मार्च) एमसीएक्स



### तांबा (मार्च) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 776.75

निचला स्तर: 761.40

एमसीएक्स में तांबा (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 02 मार्च 2023 को 763.10 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 755.96 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 48.93 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

782.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 748.00 ₹ के टारगेट के लिए 770.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### ग्वारसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



### ग्वारसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6106.00

निचला स्तर: 5553.00

एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 02 मार्च 2023 को 5595.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5971.49 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 33.915 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6150.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5270.00 ₹ के टारगेट के लिए 5850.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### नेचुरल गैस (मार्च) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस (मार्च) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 368.10

निचला स्तर: 177.90

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 02 मार्च 2023 को 227.40 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 274.53 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 51.156 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

200.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 260.00 ₹ के टारगेट के लिए 220.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आपूर्ति में सुधार की संभावना के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में मामूली गिरावट होने की संभावना है। तेलंगाना के निजामाबाद बाजार में आवक में सुधार होना शुरू हो गया है और प्रतिदिन लगभग 20000-25000 बैग हल्दी की आवक हो रही है। इसी तरह, सांगली में भी आपूर्ति बढ़ी है, जहां कीमतों में अधिक गिरावट की उम्मीद में थोक खरीदार भारी खरीदारी से दूर रह रहे हैं। आगे बाजार का प्रमुख फोकस निर्यात पृष्ठताछ पर होगा क्योंकि कीमतों में गिरावट के साथ निर्यात मांग बढ़ रही है। हल्दी की कीमतों में 6600 के सपोर्ट स्तर तक गिरावट होने की संभावना है और निकट अवधि में 7300 पर रजिस्ट्रेंस रहने की संभावना है।

आगामी सीजन के लिए कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। मिलों के साथ-साथ स्टॉकस्टों के पास भी स्टॉक काफी कम हैं जो उन्हें कीमतों में हर गिरावट पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। कीमतों को 29000 के पास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और कीमतों के इस स्तर के करीब आने पर खरीदारी दिखाई दे रही है। गुजरात में रकबा घटने से वर्ष 2023 में जीरे का उत्पादन 5-8% कम होने की उम्मीद है। त्योहारी मांग में सुधार और निर्यात पृष्ठताछ से बाजार के सेंटीमेंट में मजबूती बनी रहेगी। जीरा की कीमतें 29000-34000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आगामी सीजन में आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। गुजरात में प्रतिदिन लगभग 2-2.25 लाख बैग की आवक हो रही है और इसके आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। मांग में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खरीदार और मसाला मिलें प्रमुख मंडियों में नई आवक की बढ़ती आपूर्ति की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। वर्ष 2022-23 में धनिया का उत्पादन 2021-22 में 8 लाख टन से बढ़कर 9.5 लाख टन होने का अनुमान है। धनिया की कीमतों के 6500-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

सुस्त औद्योगिक खरीद के कारण कॉटन/कपास की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कपास के उच्च उत्पादन संभावना और किसानों के पास भारी स्टॉक से कीमतों में अधिक गिरावट आने की संभावना है। भारत में कपास की रोजाना आवक लगभग 1.40 - 1.70 लाख गांठ (170 किग्रा) होने का अनुमान है, जबकि गुजरात के बाजार में गुजरात में औसत आधार पर रोजाना 40,000 गांठ की आवक दर्ज की गई। कपड़ा मंत्रालय की कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति ने चालू सीजन के दौरान कपास का उत्पादन 337.23 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रत्येक) होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले सीजन की तुलना में लगभग 8% अधिक है। मौजूदा कपास सीजन में कपड़ा मिलों, जिनमें लघु उद्योग इकाइयां भी शामिल हैं, की खपत 295 लाख गांठ होने की संभावना है, जबकि निर्यात 35 लाख गांठ होने का अनुमान है। एनसीडीईएक्स पर कपास (अप्रैल) की कीमतों के 1570-1700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतें 62000-64000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

बाजार में घटती आपूर्ति के कारण कॉटनऑयलसीडकेक (मार्च) वायदा की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। कीमतों में हाल ही गिरावट के बाद मांग में सुधार हुआ है क्योंकि कपास के बीज की कीमतों में 3000 के उच्च स्तर से 15% की गिरावट आई है। कपास की सीमित निर्यात मांग के कारण वर्ष 2022-23 में कपास के बीज के उत्पादन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। भारत के उत्तरी हिस्से में तापमान सामान्य से अधिक रहने से खरीदारी गतिविधियों में सुधार हुआ है। भारत के उत्तरी भाग में गर्म हवाओं के कारण हरे चारे की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके कारण पशु आहार उद्योग में मांग में वृद्धि हुई है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतें 2400-2800 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

स्थानीय बाजार में सीमित खरीददारी के कारण ग्वारसीड (मार्च) वायदा की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। ग्वारगम की निर्यात मांग मार्च में सीमित रहने की संभावना है जो प्रमुख खरीदारों को ग्वार की थोक खरीद से दूर रखेगी। लेकिन स्थानीय बाजार में आपूर्ति कम होने से ग्वार की कीमतों में कम गिरावट होने की संभावना है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक भी कम हो गई है क्योंकि किसान कीमतों में और अधिक वृद्धि की उम्मीद में रुके हुए हैं। तकनीकी रूप से, ग्वारसीड की कीमतों को 5300 के सपोर्ट पर और निकट अवधि में 6000 पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों के 11200-13000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मांग में सुधार के कारण मेंथा ऑयल वायदा (मार्च) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। कारोबारियों की नजर मुख्यतः आगामी बुवाई के आंकड़ों पर होगी क्योंकि रबी फसल की कटाई के बाद पश्चिमी यूपी में बुवाई शुरू होने की संभावना है। भारत के उत्तरी भाग में सामान्य से अधिक तापमान से बुवाई गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतें 1020 के सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर रिकवरी कर सकती हैं और निकट अवधि में 1070 के स्तर पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है।

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा (मार्च) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी तेल कारोबारियों के लिए सुस्त निर्यात मांग अभी भी एक बड़ी चिंता है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ थ्रूले भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष के 689 हजार टन के मुकाबले वर्ष 2022 में कैस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 581 हजार टन रह गया है। आगे चलकर अरंडी की कीमतें 6100-6900 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

### सर्सीफा

जनवरी के मध्य के बाद से सोने की कीमतों सबसे अधिक साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई क्योंकि अमेरिकी डॉलर में गिरावट हुई, जबकि व्यापारियों को फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी निवेशकों को सोने जैसी गैर-लाभकारी संपत्तियों में निवेश करने से हतोत्साहित करती है। जनवरी के बाद से डॉलर इंडेक्स में पहली साप्ताहिक गिरावट हुई है, जिससे अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए बुलियन अधिक किफायती हो गया। अर्थव्यवस्था पर उच्च अमेरिकी ब्याज दरों का प्रभाव केवल इस वसंत में शुरू हो सकता है, जो फेड दरों में तिमाही-बिंदु दर की वृद्धि करने के लिए प्रमुख तर्क है। अटलांटा फेड के अध्यक्ष राफेल बायोस्टिक ने कहा कि अगर मुद्रास्फीति धीमी नहीं होती है तो वह दरों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या पिछले सप्ताह फिर से कम हो गई, और इस कारण यह आशंका बढ़ गई कि फेड ब्याज दरों में अधिक समय तक बढ़ोतरी करता रहेगा। एक अन्य रिपोर्ट में दिखाया गया है कि चौथी तिमाही में पहले के अनुमान की तुलना में श्रम लागत बहुत तेजी से बढ़ी है। मुद्रा बाजार को उम्मीद है कि सितंबर में फेड की लक्ष्य दर 5.453% पर पहुंच जाएगी। कॉम्पेक्स पर सोने की कीमतों को 1845 डॉलर के पास डॉलर के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ रहा है, और इस स्तर को पार करने के बाद कीमतें 1860/1880 डॉलर तक बढ़ सकती हैं जबकि नीचे की तरफ 1800 डॉलर का स्तर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है। चांदी की कीमतें 19.80 डॉलर से 22.65 डॉलर के दायरे में बढ़ हुईं। इस सप्ताह में सोने की कीमतों में कुछ शॉर्ट कवरींग देखी जा सकती है, लेकिन मुख्य प्रवृत्ति अभी भी नरमी का है, इसलिए कीमतों में वृद्धि पर बिकवाली अच्छी रणनीति होगी और कीमतें 53800-57500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतें 62500-68000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

उच्च ब्याज दरों को लेकर चिंताओं की तुलना में चीन की ओर से मांग बढ़ने की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक स्तर पर बढ़त दर्ज की गई। दुनिया में सबसे अधिक तेल आयातक चीन में तेल की मांग में सुधार से कीमतों को समर्थन मिल रहा है क्योंकि चीन में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि पिछले महीने एक दशक से भी अधिक समय में सबसे तेज गति से बढ़ी। लेकिन पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका बरकरार है क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को निचले स्तर पर लाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं और तेल की कीमतों को बढ़त को सीमित कर रही हैं। बाजार फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में उपभोक्ता कीमतों में अपेक्षा से अधिक तेज वृद्धि से सावधान है, जिसने यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा ब्याज दरों में अधिक वृद्धि की उम्मीदों को बल दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने हाल ही में कहा है कि फरवरी में यूरोजोन की मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक 8.5% बढ़ी है। महंगाई में कमी का अभी कोई संकेत नहीं है, इसलिए फेड और ईसीबी दोनों पर दबाव पड़ रहा है कि वे मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाने के लिए नीति को सख्त बनाने के लिए अधिक प्रयास करें। चीन का पीएमआई आंकड़ा 52.6 तक बढ़ गया और 2012 के बाद से अधिक हो गया, क्योंकि उत्पादन और नए ऑर्डर में उल्लेखनीय सुधार हुआ और नए निर्यात ऑर्डर 50 से ऊपर और 23 महीने में पहली बार अधिक हो गया है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी सकती है जहां कीमतें 6000-6800 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। नेचुरल गैस 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई क्योंकि निवेशकों को चिंता है कि गैस भंडार में सामान्य से अधिक निकासी हो सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार जारी रह सकता है जहां इसे 200 के पास सपोर्ट और 270 के पास रजिस्ट्रेंस मिल सकता है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं क्योंकि विश्व स्तर पर लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना, जिससे आर्थिक विकास कम होने की आशंका है, के कारण कीमतों पर दबाव रह सकता है जबकि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन से मजबूत फूँकटी गतिविधि के आंकड़े मांग की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। चीन निवेशकों और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ावा देने और कोविड महामारी के बाद तेजी से रिकवरी करने के लिए 2023 में अपने आर्थिक विकास लक्ष्य के साथ तेजी से महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, जिसका लक्ष्य 6% की वृद्धि हासिल करना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन की मैनुफैक्चरिंग गतिविधि फरवरी में एक दशक से अधिक समय में सबसे तेज गति से बढ़ी है। तांबे की कीमतें 750-785 के दायरे में कारोबार कर सकती है। धातु प्रसंस्करण संयंत्रों के उपग्रह निगरानी के आंकड़ों से पता चलता है कि रिफाईंड तांबे के प्रमुख उत्पादक चीन में गतिविधि में फिर से उछाल के बावजूद फरवरी में वैश्विक स्तर पर तांबा चलाने की गतिविधि में गिरावट आई है। सरकारी संस्था कोचिलको ने कहा कि चिली में तांबे का कुल उत्पादन जनवरी में 2.9% बढ़कर 437,900 टन हो गया। इस बीच, वैश्विक आपूर्ति के बारे में चिंता कम हुई। पनामा की सरकार और कनाडा की फर्स्ट क्वांटम तांबे की एक प्रमुख खदान को संचालित करने के लिए अनुबंध पर अपनी बातचीत पर एक समझौते के करीब हैं। जिंक की कीमतें 260-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लोड की कीमतें 178-187 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतें 205-217 के दायरे में कारोबार कर सकती है। यूरो क्षेत्र में मोटर वाहन उत्पादन स्तर में सुधार के बावजूद, एल्युमीनियम की मांग अभी तक नहीं बढ़ी है, और शेष स्टॉक के बीच धातु की आवश्यकताएं अभी भी कम हो गई हैं। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (मार्च) की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 48000-50000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कुछ मिलों के उत्पादन फिर से शुरू होने के बाद चीन में इस्पात मिलों को उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए लौह अयस्क के भंडार को फिर से भरने की उम्मीद है। इस्पात खपत क्षेत्रों से मांग में सुधार के साथ-साथ कच्चे माल की अधिक कीमतें इस्पात बाजार को समर्थन प्रदान कर सकती हैं।

## 2022-23 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान.....फिर से नया रिकॉर्ड

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3235.54 लाख टन होने का अनुमान है जो 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 79.38 लाख टन अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का नया कीर्तिमान किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल शोध और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है।

श्री तोमर ने अग्रिम अनुमानों में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि की सराहना करते हुए आशा जताई कि आने वाले वर्षों में मोटे अनाज/पोषक अनाज के उत्पादन और प्रयोग में और अधिक वृद्धि होगी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटे अनाज/पोषक अनाज को 'श्री अन्न' का नाम दिया है।

खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन, जो 2016-17 से हर साल लगातार बढ़ रहा है, ने भारत को दुनिया के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल करने में मदद की है।



स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

- वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1308.37 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है।
- देश में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1121.82 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 346.13 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 337.30 लाख टन उत्पादन की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है।
- श्रीअन्न (पोषक-अनाज) का उत्पादन 527.26 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 16.25 लाख टन अधिक है।
- मूंग का उत्पादन रिकॉर्ड 35.45 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 3.80 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 278.10 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन एवं विगत पांच वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है।
- सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसो का उत्पादन क्रमशः 139.75 लाख टन एवं 128.18 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष 2021-22 के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 9.89 लाख टन और 8.55 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 4687.89 लाख टन होने का अनुमान है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 293.65 लाख टन अधिक है।
- कपास का उत्पादन 337.23 लाख गांठें (प्रति गांठ 170 किग्रा का) तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 100.49 लाख गांठें (प्रति गांठ 180 किग्रा का) होने का अनुमान है।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ट्रेडिंग या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।